



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 47]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 22, 1978/फाल्गुन 3, 1899

No. 47]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 22, 1978/PHALGUNA 3, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

वाणिज्य मंत्रालय

(आयात व्यापार नियंत्रण)

सार्वजनिक सूचना संख्या 20 आई० टी० सी० (पी० एन०)/78

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 1978

विषय :—स्वतन्त्र लाइसेंस योजना के अन्तर्गत ताड़ के तेल (ताड़ की गिरी के तेल सहित) का आयात अप्रैल, 1977—मार्च, 1978 के लिए आयात नीति।

क्रि० सं० आई० पी० सी०/3/3/77 :—वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 6-आई० टी० सी०/(पी० एन०)/78 दिनांक 13 जनवरी, 1978 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार यह व्यवस्था की गई है कि उसकी कठिनाई 3 में उल्लिखित सीमा को छोड़ कर भविष्य में ताड़ के तेल (सभी प्रकार के) आयात के लिए कोई भी लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।

2. सरकार द्वारा उपर्युक्त मामले पर पुनः विचार किया गया है और यह निश्चय किया गया है कि नीचे कठिनाई 3 एवं 4 में उल्लिखित व्यवस्थाओं के अधीन और पक्की संविदाओं के निम्नलिखित मामलों के लिए भी ताड़ के तेल (सभी प्रकार के) के आयात के लिए स्वीकृति दी जाए :—

- (1) ऐसे तेल के आयात के निषेध से सम्बद्ध आवेदनों को जारी करने की तारीख को या इस से पूर्व जारी किए गए लाइसेंस किन्तु जो उक्त तारीख को अपरिवर्तनीय साब-पत्र के अन्तर्गत न आते हों; और

- (2) कम से कम एक सप्ताह पूर्व अर्थात् 6 जनवरी, 1978 को या इससे पूर्व विदेशी संभरकों के साथ आवेदकों द्वारा की गई पक्की संविदाओं के आधार पर निषेध करने की तारीख को लाइसेंस प्राधिकारियों के पास निम्नलिखित आवेदन पत्र।

3. इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार और उपर्युक्त कठिनाई 2(1) की शर्तों के अन्तर्गत जारी किया गया प्रत्येक आयात लाइसेंस इस-आर्से के अधीन जारी किया जाएगा (जारी किया गया-माना जाएगा) कि ऐसे लाइसेंसों के अन्तर्गत आने वाले माल आयात करने पर केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा नामोदित या नियुक्त अधिकारियों को उनके द्वारा निषेध दिए जाने पर और उनके द्वारा नियत की जाने वाली कीमत(तों) पर ही बेचा जाएगा। फलतः लाइसेंसों के वे धारक/आवेदक जो इन शर्तों का अनुपालन करने के लिए तैयार नहीं हैं उन्हें चाहिए कि वे तुरन्त ही सम्बद्ध लाइसेंस प्राधिकारियों को अपनी असमर्थता के बारे में अवगत करा दें और जैसा भी मामला हो अपने लाइसेंसों को रद्द करा दें या अपने आवेदनपत्रों को वापिस ले लें।

4. इस सार्वजनिक सूचना से सम्बद्ध प्रत्येक प्रेषण के लाइसेंस धारक के लिए यह आवश्यक होगा कि वह तुरन्त ही प्रत्याभित/वास्तव में पहुंच गए सम्बद्ध माल के विलुप्त व्यौरों के बारे में नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को अवगत कराए और आयातित तेल को किसी भी अन्य व्यक्ति को सीधे ही बेचने से पूर्व उनकी लिखित में अनुमति प्राप्त कर ले।

क्रि० सं० गोवाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-नियंत्रित

MINISTRY OF COMMERCE

(Import Trade Control)

PUBLIC NOTICE NO. 20—ITC(PN)/78

New Delhi, the 22nd February, 1978

Subject :— Import of Palm oil (including palm kernel oil) under the free licensing scheme : Import Policy for April 1977—March 1978.

F. No. ITC/3/3/76.—Attention is invited to Ministry of Commerce Public Notice No. 5-ITC(PN)/78, dated the 13th January, 1978, in terms of which it has been provided that no licence for import of palm oil (all types) shall be issued, in future, except to the extent mentioned in para 3 thereof.

2. The matter has been reconsidered by Government and it has been decided to allow subject to the provisions of paras 3 & 4 hereunder the import of palm oil (all types) against the following cases of firm contracts as well :—

- (i) Licences issued on or before the date of issue of orders banning the import of such oils but not covered by an irrevocable letter of credit on the said date ; and
- (ii) Applications pending with the licensing authorities on the date of banning, on the basis firm contracts

entered into by the applicants with the foreign suppliers at least one week earlier, i.e. on or before the 6th January, 1978.

3. Every import licence issued in terms of this Public Notice and also those covered by para 2(i) above, shall be (deemed to have been) issued, subject to the condition that the goods covered by such licences shall, on importation, be sold to the Central Government or to agencies designated or appointed by the Central Government, if so directed by it and at such price(s) as may be fixed by it. Consequently, such of the licence holders/applicants as are not prepared to abide by these conditions should forthwith intimate to the concerned licensing authority their inability to do so and have their licences cancelled or applications withdrawn, as the case may be.

4. It will be incumbent upon the licence holder of every consignment to which this Public Notice relates to intimate its detailed particulars forthwith to the Ministry of Civil Supplies and Co-operation, New Delhi, about the expected/actual arrival of the goods concerned and take their prior written permission before the imported oil is sold, directly, to any other person.

K. V. SESHADRI,

Chief Controller of Imports & Exports